

QUIZ
PART-09
अध्याय - 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत

1. पूर्णाधिकार अंशधारकों को कौन-सी प्राथमिकता प्राप्त होती है?
- मतदान का अधिकार
 - निश्चित लाभांश के बाद भुगतान
 - निश्चित लाभांश और समाप्ति पर पूँजी वापसी
 - प्रबंधन में भागीदारी

(C)

व्याख्या: पूर्णाधिकार अंशों में दो प्राथमिकताएँ होती हैं—निश्चित लाभांश पहले और समाप्ति पर पूँजी वापसी में प्राथमिकता।

2. पूर्णाधिकार अंशों का लाभांश किसके विवेक पर दिया जाता है?
- अंशधारकों
 - सरकार
 - निदेशक मंडल
 - कंपनी सचिव

(C)

व्याख्या: लाभांश का भुगतान निदेशक मंडल के विवेक पर होता है और कर कटौती के बाद दिया जाता है।

3. निम्न में से कौन पूर्णाधिकार अंशों का प्रकार है?
- सीमित अंश
 - सामान्य अंश
 - संचयी एवं असंचयी
 - निवेश अंश

(C)

व्याख्या: संचयी व असंचयी, भागीदारी व अभागीदारी, परिवर्तनशील व अपरिवर्तनशील — ये तीन प्रकार होते हैं।

4. संचयी पूर्णाधिकार अंश का गुण कौन-सा है?
- लाभांश अगले वर्षों के लिए नहीं जुड़ता
 - लाभांश आगे चलकर जोड़ दिया जाता है
 - लाभांश निश्चित नहीं
 - लाभांश केवल लाभ होने पर ही दिया जाता है

(B)

व्याख्या: संचयी अंशों में अदत्त लाभांश भविष्य के वर्षों में जोड़ दिया जाता है।

5. भागीदारी पूर्णाधिकार अंशों को कौन-सा अधिकार मिलता है?
- मतदान का अधिकार
 - पूँजी वापसी
 - अतिरिक्त लाभ में हिस्सा
 - ऋण लेने का अधिकार

(C)

व्याख्या: ये अंशधारक निश्चित लाभांश पाने के बाद कंपनी के अतिरिक्त लाभ में भी भाग ले सकते हैं।

6. परिवर्तनशील पूर्णाधिकार अंशों की विशेषता क्या है?

- इन्हें वापस नहीं लिया जा सकता
- इन्हें सामान्य अंशों में बदला जा सकता है
- इनमें लाभांश नहीं दिया जाता
- ये समाप्ति योग्य नहीं होते

(B)

व्याख्या: निश्चित समय पर ये अंश सामान्य (समतता) अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं।

7. पूर्णाधिकार अंश का एक प्रमुख गुण कौन-सा है?

- मतदान का पूर्ण अधिकार
- नियमित और सुनिश्चित आय
- उच्च जोखिम
- लाभांश निश्चित नहीं

(B)

व्याख्या: पूर्णाधिकार अंशधारकों को नियमित व अपेक्षाकृत सुरक्षित आय मिलती है।

8. पूर्णाधिकार अंशों की एक सीमा क्या है?

- संपत्ति पर अधिकार
- कर में छूट
- लाभांश दर ऋणपत्रों से अधिक
- लाभांश हमेशा सुनिश्चित

(C)

व्याख्या: पूर्णाधिकार अंशों पर लाभांश दर अक्सर ऋणपत्रों के ब्याज से अधिक होती है।

9. पूर्णाधिकार अंश किन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं?

- स्थिर आय चाहने वाले
- जोखिम लेने को तैयार नहीं रहने वाले
- अल्पकालिक लाभ चाहने वाले
- दीर्घकालिक निवेशकों

(B)

व्याख्या: पूर्णाधिकार अंश जोखिम उठाने के इच्छुक निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

10. पूर्णाधिकार अंशों में किसकी विशेषताएँ पाई जाती हैं?

- केवल समता अंशों की
- केवल ऋणपत्रों की
- समतता अंश और ऋणपत्र दोनों की
- न समता अंश, न ऋणपत्र

(C)

व्याख्या: इनमें समता अंश और ऋणपत्र दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं।